

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 14, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 14, 1938)

विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

क्रमांक-30870-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री ज्ञान सिंह ने विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 से स्वीकृत किये जाने के कारण मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.